



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 5—जनवरी 11, 2008 (पौष 15, 1929)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 5—JANUARY 11, 2008 (PAUSA 15, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	1
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.....	1	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	769
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007

सं० 227- प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जय नारायण सिंह,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 8.2.2005 को लगभग 1800 बजे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपनी हिरासत में लिए दो दुर्दान्त अपराधियों को दिल्ली के कोर्ट में पेश करने के बाद डी टी सी की बस में ले जा रही पुलिस पार्टी पर कुछ दुस्साहसियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर आक्रमण कर दिया। दुस्साहसी दोनों अपराधियों को छुड़ाने में कामयाब हो गये। उन्होंने तीन पुलिस कार्मिकों को घायल कर दिया। जिनमें से एक ने बाद में दम तोड़ दिया। अपराधी पुलिस कार्मिकों की राइफल्स भी छीन ले गए। उक्त सूचना मिलते ही एस एस पी गाजियाबाद, श्री जय नारायण सिंह अपराध स्थान की ओर दौड़े और उझेरहा रजवाहा की पुलिस पुलिस स्टेशन मुरादनगर पहुंचे जहां सी ओ मोदीनगर ने एस एस पी को सूचना दी कि गांववालों ने अपराधियों का पीछा किया था और यह देखा कि वे नजदीक के गन्ने के खेत में घुस गए हैं। एस एस पी ने उपलब्ध पुलिस बल को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए तीन पुलिस पार्टियाँ बनाई। लगभग 2030 बजे अति एस पी (ग्रामीण क्षेत्र) गाजियाबाद श्री बी के शेखर भी वहां पहुंच गए। पुलिस पार्टी द्वारा छोड़े गए पी एम एफ की दूधिया रोशनी में गन्ने के खेत में अपराधियों की झलक दिखाई दी। श्री जय नारायण सिंह ने उन्हें चेतावनी दी और समर्पण करने के लिए कहा। यह सुनते ही अपराधियों ने तुरंत पुलिस पार्टी पर उनको मारने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एस एस पी, अति. एस एस पी और एस आई सी पी श्री सुशील कुमार यादव अपराधियों की गोलीबारी की जद में आ गए इसलिए वे छरों से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी, एस एस पी और अति. एस पी युद्ध कौशल से अपनी रक्षा करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ तेजी से रेंगकर आगे

बढ़े और उनकी गोलीबारी के जवाब में अपनी तरफ से प्रभावी गोलीबारी की। पीछा करने के दौरान जब पुलिस पार्टी उनके नजदीक पहुंची तो वहां दो अपराधियों के शव मिले। इन शवों की पहचान बाद में अनिल भारसी और राजीव उर्फ बबलू के रूप में हुई। अपराधियों द्वारा कुछ घंटे पहले पुलिस कार्मिकों द्वारा लूटी गई दो राईफलें शवों के बगल में पड़ी हुई मिलीं जिनके साथ जिन्दा और प्रयोग किए हुए कारतूस भी बरामद हुए। कुछ ही घंटे पहले एक पुलिस वाले को मारने और अन्य दो पुलिस कार्मिकों को घायल करने और उनके हथियार लूटने वाले ने दुर्दांत अपराधियों के साथ हुई आमने सामने की भीषण मुठभेड़ में श्री जय नारायण सिंह और श्री बी के शेखर द्वारा चलाई गई गोलियों की चोट से वे दोनों अपराधी मारे गए।

इस मुठभेड़ में, श्री जय नारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा इसके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

ब. रू. मि. ११

(बरूण मित्रा)

संयुक्त सचिव

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)**

नई दिल्ली, दिनांक : 17 दिसम्बर, 2007

सं. 1/3/2007-कमेटी

सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय का दिनांक 01 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2010 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगे :

1. प्रो. एस.के. ब्रह्मचारी अध्यक्ष (पदेन)
महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली - 110 001
2. डॉ. संजीव मिश्रा सदस्य-वित्त
सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली - 110 001
3. डॉ. एन. रामकृष्णन सदस्य
निदेशक
उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान
होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका
भोपाल - 462 026
4. डॉ. सिद्धार्थ रॉय सदस्य
निदेशक
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान
4, राजा एस.सी. मल्लिक रोड
जादवपुर
कोलकाता - 700 032
5. सुश्री सुलेजा फिरोदिया मोतवानी सदस्य
संयुक्त प्रबंध निदेशक, काइनेटिक इंजीनियरिंग लि. एवं
निदेशक
काइनेटिक मोटर कम्पनी लि.
डी-1 ब्लॉक, प्लॉट नं. 18/2
एमआईडीसी छिंदवाड
पुणे - 411 019

- | | | |
|-----|---|-------|
| 6. | श्री ई. श्रीधरन
प्रबंध निदेशक
दिल्ली मेट्रो रेल निगम
एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार
भीष्म पितामह मार्ग
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |
| 7. | डॉ. अमित मित्रा
महासचिव,
फेडरेशन ऑव इंडियन चैम्बर्स ऑव
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस
तानसेन मार्ग
नई दिल्ली - 110 001 | सदस्य |
| 8. | प्रो. एम. विजयन
मानद प्रोफेसर
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑव साइंस
बेंगलूर - 560 012 | सदस्य |
| 9. | प्रो. सुरेन्द्र प्रसाद
निदेशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज खास
नई दिल्ली - 110 016 | सदस्य |
| 10. | डॉ. टी. रामसामी
सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली - 110 016 | सदस्य |
| 11. | डॉ. एम.के. भान
सचिव
जैवप्रौद्योगिकी विभाग
ब्लॉक - 2, सातवीं मंजिल
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110 003 | सदस्य |

निखिल

(निखिलेश झा)

संयुक्त सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2007

संकल्प

एसटीक्यूसी/1(3)/2004 : एसटीक्यूसी निदेशालय में आईएसओ 15408 के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामान्य मानदण्ड (सीसी) योजना तथा सामान्य मानदण्ड परीक्षण प्रयोगशाला का प्रचालन शुरू करना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विचाराधीन था । इस दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामान्य मानदण्ड को अनुमोदित किया है । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय प्रमाणन निकाय के रूप में कार्य करेगा, ईआरटीएल (पूर्व), कोलकाता योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य मानदण्ड परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगा तथा महानिदेशक, एसटीक्यूसी निदेशालय प्रमाणन निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जिसके अधिशासी बोर्ड में सभी हितधारियों का प्रतिनिधित्व होगा जो योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शन, निरीक्षण करेंगे और नीतिगत निर्णय लेंगे ।



(ओमप्रकाश वर्मा)
उप निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th December, 2007

No. 227—Pres/2007—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

**Shri Jai Narayan Singh,
Senior Superintendent of Police**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.02.2005 at about 1800 hrs. in P.S. Muradnagar area distt. Ghaziabad, some desperadoes assaulted at police party carrying two dreaded criminals in its custody in a DTC bus, after producing them in the court in Delhi, by opening indiscriminate fire on them. The desperadoes managed to set free both the dreaded criminals, injuring three police personnel, one of whom died later on. The criminals also snatched away rifles of the police personnel. On receipt of the above information SSP Ghaziabad, Sri Jai Narayan Singh rushed to the scene of crime and reached Ujherha Rajwaha Ki Pulia P.S. Muradnagar, where C.O. Modinagar met him along with police force and the local villagers. C.O. Modinagar informed the SSP that the villagers had chased the criminals and they have entered the nearby sugarcane field. The SSP took account of the available police force and formed three police parties for arresting the criminals. At about 2030 hrs. Addl. S.P. (Rural Area) Ghaziabad Shri V.K. Shekhar also reached there. In the white light of the P.M.F, fired by the police party, a glimpse of the criminals was seen in the sugarcane field. Shri Jai Narayan Singh warned and asked them to surrender. Hearing this, the criminals instantly opened indiscriminate fire on the police party with intention to kill them. SSP, Addl. S.P., and SI C.P. Sri Sushil Kumar Yadav were in the firing range of the criminals, resulting in gun shot injuries to them. Despite the injuries, SSP and Addl. S.P., crawled fast towards the criminals to arrest them defending themselves using field-craft tactics and retaliating their firing with minimum effective firing from their side. During this hot pursuit when the police party reached closer, two dead bodies of the criminals were found there. These bodies were identified as that of to Anil Bharsi and Rajeev Alias Babloo. Two rifles, looted by the criminals from the police personnel a few hours earlier, lying besides the bodies, were also recovered from there along with live and used cartridges. During fierce, face to face, hot pursuit encounter with the dreaded criminals who only a few hours earlier had killed one police man

and had injured two other police personnel having looted their weapons, the criminals succumbed to their injuries caused by the bullets fired by Shri Jai Narayan Singh and Shri V.K. Shekhar.

In this encounter Shri Jai Narayan Singh, Senior Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th February, 2005.


(Barun Mitra)
Joint Secretary

**DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

New Delhi, the December 17, 2007

No.1/3/2007-Cte

It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research has been reconstituted for a period of three years with effect from 1st July, 2007 to 30th June, 2010 and shall consist of the following :-

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Prof. S.K. Brahmachari
Director-General
Council of Scientific & Industrial Research
Anusandhan Bhavan
2, Rafi Marg
New Delhi – 110 001 | Chairman
(Ex-officio) |
| 2 | Dr. Sanjiv Misra
Secretary (Expenditure)
Ministry of Finance
North Block
New Delhi – 110 001 | Member-Finance |
| 3 | Dr. N. Ramakrishnan
Director
Advanced Materials & Processes
Research Institute
Hoshangabad Road, Habibganj Naka
Bhopal – 462 026 | Member |

- | | | |
|----|--|--------|
| 4 | Dr. Sidhartha Roy
Director
Indian Institute of Chemical Biology
4, Raja S.C. Mullick Road
Jadavpur
Kolkata – 700 032 | Member |
| 5 | Ms. Sulajja Firodia Motwani
Joint Managing Director, Kinetic Engineering Ltd. &
Director
Kinetic Motor Company Ltd.
D-1 Block, Plot No. 18/2
MIDC Chinchwad
Pune – 411 019 | Member |
| 6 | Shri E. Sreedharan
Managing Director
Delhi Metro Rail Corporation
NBCC Place, Pragati Vihar
Bhishma Pitamah Marg
New Delhi – 110 003 | Member |
| 7 | Dr. Amit Mitra
Secretary General
Federation of Indian Chambers of
Commerce & Industry
Federation House
Tansen Marg
New Delhi – 110 001 | Member |
| 8 | Prof. M. Vijayan
Hony. Professor
Indian Institute of Science
Bangalore – 560 012 | Member |
| 9 | Prof. Surendra Prasad
Director
Indian Institute of Technology Delhi
Hauz Khas
New Delhi – 110 016 | Member |
| 10 | Dr. T. Ramasami
Secretary
Department of Science and Technology
Technology Bhavan
New Mehrauli Road
New Delhi – 110 016 | Member |
| 11 | Dr. M.K. Bhan
Secretary
Department of Biotechnology
Block-2, 7 th Floor C.G.O. Complex
Lodi Road
New Delhi – 110 003 | Member |


(Nikhilesh Jha)
Joint Secretary

Department of Information Technology
STQC Directorate

New Delhi, the 13th Dec., 2007

RESOLUTION

STQC/1(3)/2004: Department of Information Technology have had under consideration launching operation of Common Criteria (CC) Scheme and Common Criteria Test Laboratory for Evaluation & Certification of IT products for Security as per ISO 15408 at STQC Directorate in IT Sector. As a step in that direction the Government have approved the Common Criteria (CC) in IT Sector in conformance to international standards. The Standardisation, Testing & Quality Certification (STQC) Directorate an attached office under the Department of Information Technology will function as Certification Body ERTL(E), Kolkata will function as Common Criteria Test Laboratory for implementing the scheme with Director General, STQC Directorate functioning as ex-officio Chairman of the Certification Body which will have a Governing Board representing all the interests involved to guide, oversee and take policy decisions with regard to the implementation of the scheme.



(O.P. VERMA)
DY. DIRECTOR